

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरत्न कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

एनसीएल/प्रे.वि./2017-18/312

दिनांक- 03.10.17

प्रेस विज्ञप्ति

एनसीएल के कोयला उत्पादन एवं प्रेषण में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी ने किया 42.80 मिलियन टन कोयले का उत्पादन एवं 44.62 मिलियन टन कोयले का प्रेषण

सिर्फ सितंबर महीने में कंपनी का कोयला उत्पादन 37 प्रतिशत तथा प्रेषण 42 प्रतिशत बढ़ा

भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (यानी अप्रैल से सितंबर तक) 42.80 मिलियन टन कोयले का उत्पादन तथा 44.62 मिलियन टन कोयले का प्रेषण (डिस्पैच) कर लिया है। इस अवधि में कंपनी का कोयला उत्पादन एवं प्रेषण दोनों ही पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी द्वारा किए गए कोयला उत्पादन एवं प्रेषण के मुकाबले लगभग 17 प्रतिशत अधिक हैं। पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही की

समाप्ति तक कंपनी ने 36.60 मिलियन टन कोयले का उत्पादन एवं 38.16 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया था।

चालू वित्त वर्ष में सिर्फ सितंबर महीने में कंपनी का कोयला उत्पादन 7.16 मिलियन टन और प्रेषण 7.90 मिलियन टन रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष में सितंबर महीने में किए गए कोयला उत्पादन एवं प्रेषण से क्रमशः 37 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में सितंबर महीने में कंपनी ने 5.23 मिलियन टन कोयले का उत्पादन एवं 5.57 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया था।

गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में एनसीएल को 91 मिलियन टन कोयला उत्पादन एवं कंपनी के कोयला ग्राहकों को 91 मिलियन टन ही कोयला प्रेषण की जिम्मेदारी दी गई है। पहली छमाही की समाप्ति तक कंपनी ने कोयला उत्पादन लक्ष्य का 47 प्रतिशत तथा कोयला प्रेषण लक्ष्य का 49 प्रतिशत हासिल कर लिया है। कोयला उत्पादन एवं प्रेषण के लिहाज से वित्त वर्ष की आखिरी छमाही ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है।

पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2016-17 में एनसीएल ने 84.10 मिलियन टन कोयले का उत्पादन तथा अपने ग्राहकों को 83.46 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया था, जो कंपनी द्वारा किया गया रेकॉर्ड कोयला उत्पादन एवं प्रेषण था तथा कंपनी ने वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही अपना कोयला उत्पादन एवं प्रेषण लक्ष्य पूरा कर लिया था। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी को 82 मिलियन टन कोयला उत्पादन तथा 82 मिलियन टन ही कोयला प्रेषण की जिम्मेदारी मिली थी।

एनसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख सहायक अनुषंगी कंपनी है। कंपनी भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 12 प्रतिशत का योगदान देती है।

कंपनी के कोयला ग्राहकों में एनटीपीसी के बिजली घर एवं यूपी राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के बिजली घर मुख्य रूप से शामिल हैं।

(जनसम्पर्क अधिकारी)